

①

कार्यालय प्रधानाचार्य, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज एवम् सम्बद्ध चिकित्सालय, झाँसी।

संख्या: ४४२/चिकि०/असाध्य रोग/औ०भ०/निविदा सूचना/2016-17

दिनांक:- 15.3.17


निविदा आमंत्रण सूचना

त्रतीय निविदा

महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज एवम् सम्बद्ध चिकित्सालय झाँसी में असाध्य रोगियों के उपचार हेतु औषधियों/सर्जिकल सामग्री के स्थानीय कय एवम् औषधियों/सर्जिकल सामग्री की आपूर्ति के लिये अलग-अलग मुहरबन्द निविदायें दिनांक: 25/03/2017 को समय दोपहर 12.00 बजे से अधिकतम 02.00 बजे अपरान्ह तक अलग-अलग लिफाफों (टू बिड सिस्टम) में सील्ड बन्द आमंत्रित की जाती हैं। प्राप्त निविदायें दिनांक: 25.03.2017 को ही समय 03.00 बजे अपरान्ह में समिति एवम् उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेंगी।

क्र०स०	कार्य का नाम	निविदा का मूल्य रु० में (टैक्स सहित)	धरोहर धनराशि रु० में
1-	औषधि एवम् सर्जिकल सामग्री की आपूर्ति	525-00	20,000-00

निविदा प्रपत्र, निविदा की शर्तें/निर्देश एवम् औषधियों की सूची कार्यालय की वेबसाईट www.mlmcj.in से दिनांक: 18-03-2017 से डाउनलोड कर प्राप्त किए जा सकते हैं। निविदा संशोधन/शुद्धिपत्र/अंतिम तिथि विस्तारण इत्यादि समस्त जानकारियाँ सिर्फ उपरोक्त वेबसाईट पर ही उपलब्ध रहेंगी।


(एन० एस्० सेंगर)
प्रधानाचार्य

कार्यालय प्रधानाचार्य, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज एवम् सम्बद्ध चिकित्सालय, झाँसी।

**निविदा सूचना
त्रतीय निविदा**

महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज एवम् सम्बद्ध चिकित्सालय झाँसी में असाध्य रोगियों के लिये औषधियों की आपूर्ति हेतु मुहरबन्द निविदाये दिनांक: 25/03/2017 को समय दोपहर 12.00 बजे से अधिकतम 02.00 बजे अपरान्ह तक अलग-अलग लिफाफों (टू बिड सिस्टम) में सील्ड बन्द आमंत्रित की जाती है। निविदादाता को 'अ' लिफाफे में तकनीकी बिड के साथ टेंडर से सम्बन्धित मॉगी गयी अग्रिम धरोहर धनराशि ₹0 20,000-00 का एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0/बैंक चैक/बैंक ड्राफ्ट (जो कि प्रधानाचार्य, म0ल0बा0 मेडिकल कालेज, झाँसी के नाम से देय एवम् बंधक हो) तथा मॉगे गये अर्हताओं से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की छायाप्रतियाँ रखनी होंगी एवम् उसमें स्पष्ट रूप से कार्य का नाम, वर्ग एवम् तकनीकी बिड आदि अंकित करना होगा, साथ ही निविदा मूल्य ₹0 525-00 (टैंक्स सहित) का डी0डी0 जो कि प्रधानाचार्य, म0ल0बा0 मेडिकल कालेज झाँसी के नाम से देय हो, संलग्न करना होगा तथा 'ब' लिफाफे में प्राईस बिड में केवल दरों का प्रपत्र भरकर रखना होगा। इन दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में रखकर सील्ड कर दिनांक: 25/3/2017 को समय दोपहर 12.00 बजे से अधिकतम 02.00 बजे अपरान्ह तक प्रधानाचार्य कक्ष में सील्ड बन्द बॉक्स में डाला जा सकता है। प्राप्त निविदाये दिनांक: 25/03/2017 को ही समय 03.00 बजे अपरान्ह में समिति एवम् उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र, निविदा की शर्त/निर्देश एवम् औषधियों की सूची कार्यालय की वेबसाईट www.mlbcj.in से दिनांक: 18/3/2017 से डाउनलोड कर प्राप्त किए जा सकते हैं। निविदा संशोधन/शुद्धिपत्र/अंतिम तिथि विस्तारण इत्यादि समस्त जानकारियों सिर्फ उपरोक्त वेबसाईट पर ही उपलब्ध रहेंगी।

क0स0	कार्य का नाम	निविदा का मूल्य ₹0 में (टैंक्स सहित)	धरोहर राशि ₹0 में
1.	असाध्य रोगियों हेतु औषधियों/सर्जिकल सामग्री की आपूर्ति	525-00	20,000-00

आवश्यक शर्तें व निर्देश

- सभी निविदादाताओं को सम्बन्धित कार्य की निविदा हेतु निविदा शुल्क ₹0 525-00(पाँच सौ पच्चीस ₹0 मात्र) का बैंक ड्राफ्ट (जो कि प्रधानाचार्य, म0ल0बा0 मेडिकल कालेज, झाँसी के नाम से देय हो) बनवा कर बन्धक कर निविदा की टेक्नीकल बिड के साथ संलग्न करना होगा।
- सभी निविदादाताओं को सम्बन्धित कार्य की निविदा हेतु धरोहर राशि ₹0 20,000-00(बीस हजार ₹0 मात्र) का एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0/बैंक चैक/बैंक ड्राफ्ट (जो कि प्रधानाचार्य, म0ल0बा0 मेडिकल कालेज, झाँसी के नाम से देय व बंधक हो) बनवा कर निविदा की टेक्नीकल बिड के साथ संलग्न करना होगा।
- फर्म को 10-00 ₹0 के स्टाम्प पर फर्म के ब्लैक लिस्टिड न होने का शपथ पत्र बनवाकर की टेक्नीकल बिड के साथ संलग्न करना होगा।
- सभी निविदादाताओं को 10-00 ₹0 के स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र निविदा की टेक्नीकल बिड के साथ संलग्न करना होगा कि तकनीकी बिड के साथ संलग्न समस्त प्रपत्र सत्य हैं। कोई भी प्रपत्र कूट रचित या जाली नहीं है। यदि जाँचोपरान्त कोई प्रपत्र जाली पाया जाता है तो उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा सकती है।
- निविदा दाता फर्म को वैद्य वैट पंजीयन प्रमाण पत्र निविदा की टेक्नीकल बिड के साथ संलग्न करना होगा।
- निविदा की टेक्नीकल बिड के साथ वाणिज्य कर विभाग का अदेयता प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
- निविदा दाता फर्म को निविदा की टेक्नीकल बिड के साथ वैद्य आयकर पंजीयन प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करना होगा।
- विगत तीन वर्षों का आयकर रिटर्न टेक्नीकल बिड के साथ संलग्न करना होगा।
- पार्टनरशिप फर्म होने की दशा में डीड सर्टिफिकेट/पावर आफ एटोर्नी अथवा स्वयं एक मात्र प्रोपराइटर होने की दशा में इस आशय का शपथ पत्र टेक्नीकल बिड के साथ संलग्न करना होगा।
- आपूर्तिकर्ता फर्म के पास वैलिड ड्रग लाईसेंस होना अनिवार्य है, जिसकी छायाप्रति निविदा की टेक्नीकल बिड के साथ संलग्न करना होगा।
- आपूर्तिकर्ता फर्म को किसी भी राजकीय या राजकीय वित्तपोषित संस्थान में औषधि आपूर्ति से सम्बन्धित कम से कम 03 वर्षों के अनुभव का प्रमाण पत्र निविदा की टेक्नीकल बिड के साथ संलग्न करना होगा।
- स्वीकृत निविदादाता को धनराशि ₹0 100-00 के स्टाम्प पर अनबन्ध भरना होगा, जो कि निविदा का ही भाग समझा जायेगा।
- अधोहस्ताक्षरी के पास बिना कारण बताये निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
- निविदा दाता द्वारा आपूर्ति की जाने वाली प्रत्येक सामग्री की दरें निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न सामग्री सूची के नियत कालम में स्पष्ट रूप से अंकों व शब्दों में भरी जायेगी, जिसमें कोई कटिंग मान्य नहीं होगी।
- आपूर्ति की जाने वाली औषधि/सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु समय-समय पर उसका परीक्षण कराया जायेगा। अधोमानक पाये जाने पर औषधि/सामग्री की पूरी कीमत आपूर्तिकर्ता फर्म से बसूलने/आपूर्ति का लौट बदलने के साथ ही आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध विधिक कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी।



(2)

16. निविदादाता को टैक्नीकल बिड के साथ निविदा की शर्तों व सम्बन्धित समस्त माँगे गये प्रपत्र अवश्य संलग्न करने होंगे जिसकी जाँच के उपरान्त ही प्राईस बिड का लिफाफा खोला जायेगा।
17. सशर्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
18. निविदादाताओं को, औषधियों की दरें बिना किसी टैक्स के कोट करनी होंगी तथा कोट की गयी दरों पर वैट, सैट आदि टैक्स की जानकारी स्पष्ट रूप से अंकित करनी होगी। ऐसा न करने पर निविदादाता को कोट की गयी दरों पर वैट, सैट आदि टैक्स अलग से लगाने का अधिकार नहीं होगा और न ही किसी टैक्स का अलग से भुगतान किया जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी निविदा दाता की होगी।
19. निविदा दाता को उसकी निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त कार्यालय द्वारा जारी कय आदेश के सापेक्ष निर्धारित अवधि में सामग्री की आपूर्ति करना अनिवार्य होगा। आपूर्ति न करने/विलम्ब होने की स्थिति में उसके विरुद्ध प्रशासनिक दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी, जो निविदा दाता को मान्य होगी।
20. स्वीकृत निविदा दाता द्वारा सामग्री आपूर्ति के उपरान्त भुगतान हेतु उसके द्वारा प्रस्तुत बीजकों से नियमानुसार टैक्स की कटौतियाँ करने के उपरान्त अवशेष घनराशि का भुगतान किया जायेगा।
21. निविदा प्रपत्र के साथ योजित सभी प्रपत्रों में से एक भी प्रपत्र यदि निविदा दाता द्वारा डाली गयी निविदा के साथ संलग्न नहीं है, तो निविदा अपूर्ण मानते हुए उसकी निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
22. निविदा के प्रत्येक प्रपत्र पर निविदा दाता के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं।
23. निविदा समिति द्वारा न्यूनतम दरें ही मान्य होंगी तथा समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व मान्य होगा, जिसके प्रति निविदादाता को किसी भी न्यायालय में वाद दायर करने का अधिकार नहीं होगा।
24. निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी का होगा।
25. किसी भी विवाद की स्थिति में झॉसी जनपद स्तर पर ही निविदा सम्बन्धी विवाद का निस्तारण होगा। अन्य जगहों पर वाद दायर करने का अधिकार निविदादाता को नहीं होगा और न ही ऐसे वाद पर कोई विचार किया जायेगा।
26. निविदा के सील बंद लिफाफे पर असाध्य रोगियों हेतु औषधियों/सर्जिकल सामग्री की आपूर्ति हेतु निविदा अवश्य लिखा होना चाहिए।
27. आपूर्ति की जाने वाली औषधियों/कन्ज्यूमेबल्स/सामग्री की अवसान की तिथि, आपूर्ति की दिनांक से 01 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए तथा आपूर्ति आदेश प्राप्त के 15 दिनों के अंदर आपूर्ति करना होगी।
28. आपूर्ति कार्य की अनुमानित लागत परिवर्तित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
29. निविदा की स्वीकृत दरें दिनांक: 31 मार्च 2017/अगली निविदा तक तक मान्य होंगी।

(एन० एस० सेंगर)
प्रधानाचार्य

(1)

कार्यालय, प्रधानाचार्य, म०ल०बा० मेडिकल कालेज एवम् सम्बद्ध चिकित्सालय, झाँसी, उ०प्र०।

असाध्य रोगियों हेतु औषधियों/सर्जिकल सामग्री की आपूर्ति हेतु निविदा प्रपत्र वित्तीय बर्ष, 2016-17

(टैक्नीकल बिड)

(त्रतीय निविदा)

फार्म-अ

निविदा: 2016-17

टेंडर फार्म मूल्य- रू० (टैक्स सहित) कुल रू० 525-00 मात्र।

निविदा डालने की तिथि: 25/03/2017 समय दोपहर 12:00 बजे से 02:00 बजे तक।

निविदा खोलने की तिथि: 25/03/2017 समय दोपहर 03:00 बजे।

धरोहर राशि रू० 20,000-00 मात्र।

निविदा संख्या-

निविदा दाता फर्म का नाम व पता.....

कार्य का नाम(.....)

1- निविदा दाता की फर्म/कम्पनी का नाम.....

2- निविदा दाता निर्माता है अथवा डीलर/स्टाकिस्ट/डिस्ट्रीब्यूटर है (प्रमाण पत्र संलग्न करें).....

3- बैंक पंजीयन संख्या एवम् दिनांक:.....

4- अ)-आयकर पैन संख्या.....

ब)-वित्तीय बर्ष 2015-16 की इनकम टैक्स रिटर्न की छायाप्रतियाँ संलग्न करें.....

5- प्रधानाचार्य म०ल०बा० मेडिकल कालेज, झाँसी के पक्ष में देय टेंडर फार्म की कीमत (टैक्स सहित) कुल रू० 525-00 मात्र के संलग्न बैंकर्स चेक/डिमान्ड ड्राफ्ट की संख्या:..... दिनांक:..... ज्ञान आन..... बैंक का नाम(मूल रूप में संलग्न करें)।

6- प्रधानाचार्य म०ल०बा० मेडिकल कालेज, झाँसी के पक्ष में देय व बंधक धरोहर धनराशि रू० 20,000-00 (बीस हजार रू० मात्र) के एफ०डी०आर०/सी०डी०आर०/बैंकर चेक/बैंक ड्राफ्ट की संख्या:..... दिनांक:..... (मूल रूप में संलग्न करें)।

7- किसी सरकारी विभाग में औषधि आपूर्ति का तीन बर्षों का अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें)।

8- अन्य सारे प्रमाण पत्र जो कि निविदा की शर्तों/दिशानिर्देशों में माँगे गये हैं, संलग्न करें।

नोट:- निविदा की शर्तें पूरी न होने व शर्तों में आवश्यक सभी प्रमाण पत्र संलग्न न होने की स्थिति में सम्बन्धित फर्म की निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

मैंने/हमने निविदा में वर्णित सभी दिशानिर्देशों व शर्तों (संख्या 01 से 29 तक) का भली भाँति अध्ययन कर लिया है तथा मैं/हमें सभी दिशानिर्देश व शर्तें पूरी तरह स्वीकार हैं।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

निविदा दाता के हस्ताक्षर-.....

नाम व पता-.....

.....





कार्यालय, प्रधानाचार्य, म०ल०बा० मेडिकल कालेज एवम् सम्बद्ध चिकित्सालय, झाँसी, उ०प्र०।

असाध्य रोगियों हेतु औषधियों/सर्जिकल सामग्री की आपूर्ति हेतु निविदा प्रपत्र वित्तीय बर्ष, 2016-17

(प्राइस बिड)

त्रतीय निविदा

फार्म-ब

निविदा: 2016-17

टेंडर फार्म मूल्य- ₹० (टैक्स सहित) कुल ₹० 525-00 मात्र।

निविदा डालने की तिथि: 25/03/2017 समय दोपहर 12:00 बजे से 02:00 बजे तक।

निविदा खोलने की तिथि: 25/03/2017 समय दोपहर 03:00 बजे।

घरोहर धनराशि ₹० 20,000-00 मात्र।

निविदा संख्या-

निविदा दाता फार्म का नाम व पता.....

S.N o.	Name of drug/Surgical item	Pack Size	Name of company drug/item to be supplied	Rates (in letters)	Rates (in words)
1	2	3	4	5	6
1-	Peritoneal dialysis Solun. 7.5% 2ltrs.				
2-	Peritoneal dialysis Solun. 2.5% 2ltrs.				
3-	Peritoneal dialysis Solun. 1.5% 2ltrs.				
4-	Minicap				
5-	Femoral Catheter				
6-	Mini bag (Simple disc set)/Draining				
7-	CAPD introducer set				
8-	CAPD catheter				
9-	Short nose clamp				
10-	Transfer set for Peritoneal dialysis				
11-	Titaniumadapter for PD(Locking Titanium)				
12-	Neckline catheter				
13-	Plasma filter				
14-	P. D. fluid				
15-	Perma-cath.				
16-	Inj. Cisplatinum 50mg.				
17-	Inj. Cisplatinum 10mg.				
18-	Inj. 5-Fluoro uracil 250 IU				
19-	Inj. 5-Fluoro uracil 500 IU				
20-	Inj. Cyclophosphomide 500mg.				
21-	Inj. Cyclophosphomide 1gm.				
22-	Inj. Cyclophosphomide 200mg.				
23-	Inj. Etoposide 100mg.				
24-	Inj. Vincristine 100mg.				
25-	Inj. Doxorubicin 10mg.				
26-	Inj. Doxorubicin 50mg.				
27-	Cap. Rifaximin 550mg.				
28-	Inj. Methotrexate 50mg.				

Cont. on page-2

My

(2)

29-	Inj. Epirubicin 50mg			
30-	Inj. Bleomycin 15mg			
31-	Inj. Paclitaxel 260mg			
32-	Inj. Paclitaxel 100mg			
33-	Inj. Paclitaxel 200mg			
34-	Inj. Mitomycin C			
35-	Tab. Procarbazine			
36-	Tab. Linezolid 300mg			
37-	Tab. Chloremphenicol 500mg			
38-	Tab. Phenytoin Sod. Ext. Release 300mg			
39-	Tab. Zytonix 5mg			
40-	Tab. Cefuroxim+clavulanic acid 500mg			
41-	Inj. Amiodrone 2ml			
42-	Inj. Phenytoin Sod. 100mg			
43-	Tab. Metaprolol 50mg			
44-	Cap. Calcitrol 0.25 mg			
45-	Inj. Cyclosporin 50mg			
46-	Tab. Cyclosporin 50mg			
47-	Tab. Cyclosporin 25mg			
48-	Tab. Savelamer 800mg			
49-	Inj. Potchlor 10ml			
50-	Inj. Frusemide 2ml			
51-	Inj. Vancomycin 1gm			
52-	Inj. Human Albumin 20% 100ml			
53-	Tab. Arkamin 0.1mg			
54-	Tab. Torasemide 100mg			
55-	Tab. Torasemide 10mg			
56-	Tab. Torasemide 20mg			
57-	Tab. Spironolactone 50mg			
58-	Tab. Soluble Aspirin 150mg			
59-	Dettol 100ml			
60-	Solun. Povidon Iodine Scrub 100ml			
61-	Inj. Octreotide 50mg			
62-	Inj. Streptokinase 15LA units			
63-	Inj. Lorazepam 2mg			
64-	Inj. Retiplace 18mg			
65-	Inj. Retiplace 60mg			
66-	Inj. Tenecteplase 30mg			
67-	Inj. Pentazocine 1ml			
68-	Inj. Diazepam 2ml			
69-	Inj. Promethazine 2ml			
70-	Inj. Adenosine 6mg			
71-	Inj. Caleptin 2ml			
72-	Inj. Verapamil 240mg			
73-	Inj. Diltiazem			
74-	Tab Nifedipin Pro. release 20			
75-	Tab PrazopressER 5mg			
76-	Tab. Sodabcarb. 500mg			

Cont. on page-3

M...

(3)

77-	Tab. Minoxidil 5mg.				
78-	Tab. Stemetil MD				
79-	Inj. Fentanyl 2ml.				
80-	Tab. Ranolazine 500mg.				
81-	Tab. Alprazolam 0.5mg.				
82-	Tab. Nicorandil 10mg.				
83-	Inj. Dobutamin 5ml.				
84-	Inj. Lanixin 1ml.				
85-	Inj. Isoprenalin 2ml.				
86-	Inj. Metaprolol				
87-	Tab. Isordil 5mg.				

संख्या-01 से 87 तक।

मेरे/हमारे द्वारा निविदा की शर्तों का अध्ययन गम्भीरता पूर्वक कर लिया गया है एवम् मुझे/हमें सभी शर्तें स्वीकार हैं।

गवाह के हस्ताक्षर-.....
 नाम एवम् पूरा पता-.....

 दिनांक:..... मो0 सं0.....

निविदा दाता के हस्ताक्षर-.....
 नाम एवम् पूरा पता-.....

 दिनांक:..... मो0 सं0.....

Handwritten signature